



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 भाद्र 1940 (श0)

(सं0 पटना 858) पटना, मंगलवार, 18 सितम्बर 2018

सामान्य प्रशासन विभाग

आदेश

21 अगस्त 2018

सं० 3/एम0-54/2015-11256/सा0प्र0— राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में सेवानिवृत्त एवं भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों की सेवायें संविदा के आधार पर लिए जाने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग का संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक 10.07.2015 निर्गत है। उक्त संकल्प के साथ संलग्न अनुसूची में सम्मिलित पदों पर ही, संकल्प के प्रावधानों के तहत सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का संविदा के आधार पर नियोजन किया जा सकता है।

2. संकल्प की कंडिका-3(1) के प्रावधान के तहत विभिन्न विभागों/कार्यालय से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत निम्नांकित पदों को संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक 10.07.2015 की अनुसूची में सम्मिलित किया जाता है :-

क्र० सं०	विभाग का नाम	विभागीय संकल्प संख्या-10000 दिनांक 10.07.15 अनुसूची में सम्मिलित किये जाने वाले प्रस्तावित पद।
(क)	कृषि विभाग	i) प्रमण्डलीय लेखा निरीक्षक (फार्म)
(ख)	गृह विभाग (अभियोजन निदेशालय)	क्षेत्रीय कार्यालयों के अन्तर्गत:- i) निम्नवर्गीय लिपिक

क्र० सं०	विभाग का नाम	विभागीय संकल्प संख्या-10000 दिनांक 10.07.15 अनुसूची में सम्मिलित किये जाने वाले प्रस्तावित पद।
(ग)	जल संसाधन विभाग	बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना के अन्तर्गत:- i) बेतार चालक

3. उपरोक्त पदों पर सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के संविदा नियोजन हेतु संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक 10.07.2015 में निहित शर्त एवं प्रक्रिया लागू रहेंगी एवं इन पदों पर सेवा लेने के संबंध में प्रशासी विभाग द्वारा ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

आदेश से,  
सिद्धेश्वर चौधरी,  
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 858-571+10-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>